

भारत स्काउट एवं गाइड, मध्यप्रदेश राज्य मुख्यालय,
शांति मार्ग, श्यामला हिल्स रोड, भोपाल

Website: www.bsgmp.net, E-mail bsgmadhyapradesh@gmail.com phone no. 2661263, Fax: 2737446

क्र०/ ३०३७ /रा०मु०/युवा कार्यक्रम/ २०१७-१८
प्रति,

भोपाल, दिनांक ८/१०/२०१७

1. संभागीय उपायुक्त
आदिवासी विकास विभाग मध्यप्रदेश
संभागीय कार्यालय इन्दौर, जबलपुर, रींवा, शहडोल।
2. सहायक आयुक्त आदिवासी विकास/जिला संयोजक,
जिला (म०प्र०)
3. सहायक राज्य संगठन आयुक्त (स्काउट/गाइड)
भारत स्काउट एवं गाइड मध्यप्रदेश
संभागीय कार्यालय इन्दौर, जबलपुर, रींवा, शहडोल।

विषय : राज्य स्तरीय टोली नायक (पेट्रल लीडर्स) कैम्पूरी।

सन्दर्भ : राज्य के प्रतावित वार्षिक कार्यक्रमानुसार।

—००—

प्रतिवर्षानुसार इस वर्ष भी आदिवासी विकास मध्यप्रदेश के सहयोग से टोली नायको के नेतृत्व विकास व परस्पर सामूहिक सहभागिता के प्रशिक्षण एवं प्रतियोगिता की भावना जागृत करने हेतु राज्य स्तर पर टोली नायक कैम्परी का आयोजन किया जा रहा है। अतः अपने संभाग/जिले से निम्न सूचनाओं के साथ आदिवासी विकास विभाग के विद्यालयों में संचालित स्काउट/गाइड दलों में से संभाग संलग्न कोटा अनुसार टोली नायको (पेट्रल लीडर्स) को अनिवार्य रूप समिलित करावें :—

अन्य जानकारी निम्नानुसार है :—

1. कार्यक्रम का नाम : राज्य स्तरीय टोली नायक (पेट्रल लीडर्स) कैम्पूरी।
2. अवधि : दिनांक 24 से 28 अक्टूबर 2017
3. स्थान : भारत स्काउट एवं गाइड राज्य प्रशिक्षण केन्द्र, गांधीनगर भोपाल।
4. उपस्थिति दिनांक : दिनांक 24 अक्टूबर 2017 भोजन से पहले
5. कार्यमुक्ति दिनांक : दिनांक 28 अक्टूबर 2017 भोजन के बाद
6. पात्रता : आदिवासी विकास के उ०मा०वि०/हाईस्कूल/माध्यमिक विद्यालय के पंजीकृत दलों के स्काउट-गाइड जो शारीरिक रूप से स्वस्थ हो।
7. वित्तीय सहायता : समिलित होने वाले स्काउट-गाइड, स्काउटर-गाइडर को रेल कन्सेशन के आधार पर रेल तथा नजदीकी रेलवे स्टेशन तक की दूरी का बस किराया टिकिट प्रस्तुत करने पर वास्तविक किराया तथा शिविर अवधि में आतिथ्य देय होगा। जिस स्टेशन से भोपाल हेतु रेल सुविधा उपलब्ध है, वहाँ से रेल से ही यात्रा करें। निकटतम रेलवे स्टेशन के लिये बस यात्रा की जा सकती है
8. कन्सेशन : अपने क्षेत्र के ए.एस.ओ.सी. (स्का.गा.) से रेल कन्सेशन प्राप्त करें।
9. अग्रिम : उक्त शिविर में समिलित होने हेतु मार्ग व्यय हेतु अग्रिम प्राप्त करें, तथा शिविर समाप्ति पश्चात राशि जमा कर अग्रिम का समायोजन करावें।

10. आवश्यक सामग्री :—

(क) व्यक्तिगत सामग्री

02 जोड पूर्ण व्यवस्थित यूनिफार्म, पहनने व बदलने के कपड़े, भोजन करने हेतु थाली, कटोरी, चम्मच, गिलास, मौसम के अनुसार हल्का गर्म बिस्तर, प्रसाधन सामग्री, बरसाती, पेन, नोटबुक, कलर बाक्स, गाँठे हेतु रस्सी, टार्च, मच्छरदानी आदि।

(ख) टोलीवार सामग्री :

प्लास्टिक शीट, दरी, गजेट्स सामग्री, प्रोजेक्ट प्रदर्शन सामग्री, कार्यों का विवरण, प्रदर्शनी की सामग्री, टोली कार्नर की सामग्री, हस्तकला, केम्प्य फायर, शिविर सजावट, लोकनृत्य सामग्री, फार्स्टएड पट्टी, सुतली आदि आवश्यक सामग्री।

11. प्रतियोगिता कार्यक्रम :


शिविर कला, यूनिफार्म स्मार्टनेस, टोली पायनियरिंग, प्राथमिक चिकित्सा सामुदायिक विकास व सेवा कार्य, समूह राष्ट्रीय गीत, लोकगीत, लोकनृत्य, टोली कार्नर, हस्तकला, लघु उघोग, बिना बर्तन की भोजन बनाना, टोली खेल, शारीरिक प्रदर्शन, निबंध पेन्टिंग, किंज आदि प्रतियोगिता आयोजित की जावेगी।

नोट :— 1.

स्काउट-गाइड के साथ नियुक्त स्काउटर-गाइडर शिविर अवधि में पूर्ण समय स्काउट-गाइड यूनिफार्म में रहेंगे।

अतः सलंगन कोटा अनुसार पात्रता रखने वाले स्काउट-गाइड को अनिवार्यतः पूर्ण तैयारी के साथ सम्मिलित करावें। इनके आवेदन संलग्न निर्धारित प्रपत्र में मेडिकल प्रमाण-पत्र के साथ आवेदन दिनांक 18 अक्टूबर 2017 तक इस कार्यालय को प्रेषित करें।

संलग्न :— कोटा का विवरण ।


 राज्य सचिव


भारत स्काउट एवं गाइड मध्यप्रदेश
भोपाल, दिनांक 7/10/2017

क्र0/ 3038 /रामु0/युवा कार्यक्रम/2017-18

प्रतिलिपि :— सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

1. आयुक्त, आदिवासी विकास विभाग मध्यप्रदेश सतपुडा भवन भोपाल
2. राज्य संगठन आयुक्त/राज्य प्रशिक्षण आयुक्त (स्काउट/गाइड) राज्य मुख्यालय, भोपाल।
3. लेखा/स्थापना कक्ष, राज्य मुख्यालय भोपाल।
4. परियोजना कक्ष, राज्य मुख्यालय भोपाल।
5. वार्डन, राज्य प्रशिक्षण केन्द्र, गांधीनगर भोपाल

 राज्य सचिव
भारत स्काउट एवं गाइड मध्यप्रदेश




भारत स्काउट एवं गाइड, मध्यप्रदेश राज्य मुख्यालय,
शांति मार्ग, श्यामला हिल्स रोड, भोपाल

Website: www.bsgmp.net, E-mail bsgmadhyapradesh@gmail.com phone no. 2661263, Fax: 2737446

पेट्रोल लीडर कैम्पूरी (आदिवासी विकास विभाग)
दिनांक 24 से 28 अक्टूबर 2017, राज्य प्रशिक्षण केन्द्र, गांधीनगर, भोपाल
आवंटित कोटा निम्नानुसार

क्रम	संभाग	जिला	आवंटित कोटा				
			स्काउट	गाइड	स्काउटर	गाइडर	योग
1	होशंगाबाद	होशंगाबाद	9	9	1	1	20
2	होशंगाबाद	बैतूल	9	9	1	1	20
3	मुरैना	श्योपुर	9	9	1	1	20
4	इन्दौर	धार	9	9	1	1	20
5	इन्दौर	झाबुआ	9	9	1	1	20
6	इन्दौर	अलीराजपुर	9	9	1	1	20
7	इन्दौर	खण्डवा	9	9	1	1	20
8	इन्दौर	खरगौन	9	9	1	1	20
9	इन्दौर	बड़वानी	9	9	1	1	20
10	इन्दौर	बुरहानपुर	9	9	1	1	20
11	जबलपुर	छिंदवाड़ा	9	9	1	1	20
12	जबलपुर	बालाघाट	9	9	1	1	20
13	जबलपुर	सिवनी	9	9	1	1	20
14	जबलपुर	मण्डला	9	9	1	1	20
15	जबलपुर	डिंडोरी	9	9	1	1	20
16	रींवा	सीधी	9	9	1	1	20
17	शहडोल	शहडोल	9	9	1	1	20
18	शहडोल	अनुपपुर	9	9	1	1	20
19	शहडोल	उमरिया	9	9	1	1	20
20	उज्जैन	रतलाम	9	9	1	1	20
		योग	180	20	180	20	400

राज्य सचिव
भारत स्काउट एवं गाइड मध्यप्रदेश



भारत स्काउट एवं गाइड, मध्यप्रदेश राज्य मुख्यालय,
शांति मार्ग, श्यामला हिल्स रोड, भोपाल

Website: www.bsgmp.net, E-mail bsgmadhyapradesh@gmail.com phone no. 2661263, Fax: 2737446

राज्य स्तरीय स्काउट—गाइड केम्पूरी हेतु प्रार्थना—पत्र
दिनांक से तक

1. प्रतिभागी का नाम	:.....	<div style="border: 1px solid black; width: 150px; height: 150px; margin-bottom: 10px;"></div> फोटो
2. पिता का नाम	:.....	
3. वर्तमान पता	:.....	
	:.....	
	:.....	
	:.....	
4. जन्मतिथि	:..... उम्र.....	
5. शैक्षणिक योग्यता	:.....	
स्कूल/कालेज/कार्यालय का नाम	:.....	
नाम व स्थान	:..... स्थान.....	
6. अभिरुचि / नेचर सम्बन्ध	:..... नाम.....	

मैं शिविर में सम्मिलित होना चाहता/चाहती हूँ मैं प्रमाणित करता/करती हूँ कि

1. मेरे द्वारा दी गई उपयुक्त जानकारी सही है।
2. यदि किसी प्रकार की दुर्धटना/चोट अन्य प्रकार की हानि होने पर संस्था के कार्यक्रम संचालन करने वाले किसी भी स्टाफ को पूर्ण या आंशिक जिम्मेदार नहीं ठहराऊँगा।
3. शिविर का अनुशासन व संस्था के नियम जो स्टाफ या प्रशिक्षक द्वारा मुझे बताये जायेंगे उसका मेरे द्वारा पालन किया जावेगा।
- 4.

हस्ताक्षर प्रतिभागी

स्थान:—

दिनांक:—

केवल कार्यालयीन उपयोग हेतु

उपरोक्त शिविर हेतु स्वीकृत/अस्वीकृत किया जाता है।

दिनांक:—

कार्यक्रम अधिकारी

अवयस्क प्रतिभागी हेतु घोषणा—पत्र

मैं मेरे पुत्र/पुत्री को उपरोक्त कैप में जो भारत स्काउट एवं गाइड मध्यप्रदेश भोपाल द्वारा संचालित किया जा रहा है अपनी जिम्मेदारी पर भेज रहा हूँ और किसी भी शिविर संघटक को किसी भी दुर्घटना या अनहोनी के लिये जिम्मेदार नहीं ठहराऊंगा ।

हस्ताक्षर पिता/संरक्षक

स्थान:-

दिनांक:-

चिकित्सा प्रमाण—पत्र

नाम.....पिता का नाम.....

जन्म दिनांक.....आयु.....रक्त ग्रुप.....

1. वर्तमान अथवा पूर्व की कोई बीमारी/पहचान.....

2. दुर्घटना/आपरेशन के बाद की वर्तमान में स्थिति

3. एलर्जी/दवा/भोजन के बारे में कोई विशेष जानकारी.....

4. यदि प्रतिभागी पीड़ित है –

1. इन्फेक्शन रोग हाँ/नहीं 2. चर्मरोग हाँ/नहीं

3. दिमागी रोग हाँ/नहीं 4. अन्य हाँ/नहीं

5. सुनने की तकलीफ है हाँ/नहीं 6. अस्थमा हाँ/नहीं

मैंने श्रीमती/श्री/कु.

का दिनांकको चिकित्सीय परीक्षण कर शिविर में जाने हेतु
योग्य/अयोग्य पाया है ।

चिकित्सा अधिकारी
रजिस्ट्रेशन नम्बर व पद

दिनांक